

रोहतक, 7 मई। विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि, उसके मूल्य-संस्कार तथा संदेश पूरे राष्ट्र में, विश्व में पहुंचे, ये प्रयास प्रत्येक एलुमनी को करना चाहिए। सामाजिक-सामुदायिक उत्थान तथा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के आह्वान के साथ ये उद्गार हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (मदवि) के एलुमनी मीट 2017 में व्यक्त किए। कैप्टन अभिमन्यु, जो कि इस विश्वविद्यालय के एलुमनी हैं, ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पूर्व विद्यार्थी विश्वविद्यालय के एंबेसडर होते हैं। उन्होंने कहा कि एलुमनी नेटवर्किंग से संस्थान, वर्तमान विद्यार्थी तथा पूर्व विद्यार्थी सभी को फायदा होता है। उन्होंने हावर्ड बिजनैस स्कूल के एलुमनी नेटवर्क का उदाहरण देकर एलुमनी नेटवर्क के महत्त्व को रेखांकित किया। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में विश्वविद्यालय का विशेष महत्त्व होता है। जरूरत है कि एलुमनी तथा विश्वविद्यालय का एलुमनी एसोसिएशन मिलकर विश्वविद्यालय की आत्मा के विकास तथा उसके चहुंमुखी विकास में योगदान दें। मदवि एलुमनी मीट में बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कविता जैन ने कहा कि शिक्षा का जीवन में विशेष महत्त्व है। शिक्षा जीवन की चुनौतियों से जूझने का साहस देता है। श्रीमती कविता जैन ने कहा कि हमें जीवन-पर्यंत सीखने की मनोवृत्ति रखनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन को जीवन का स्वर्णिम काल करार देते हुए कविता जैन, जो कि वाणिज्य विभाग की एलुमनी हैं, ने कहा कि एलुमनी मीट विद्यार्थी जीवन की स्वर्णिम यादों को ताजा करने का मंच है। उन्होंने वर्तमान विद्यार्थियों तथा एलुमनी से सामाजिक सरोकारों तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। हरियाणा के मंत्री कैप्टन अभिमन्यु तथा श्रीमती कविता जैन ने हरियाणा सरकार की ओर से ग्यारह लाख रुपए बतौर अनुदान एमडीयू एलुमनी एसोसिएशन को देने की घोषणा की। इस एलुमनी मीट का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। कुलपति प्रो. बिजेन्द्र कुमार पूनिया ने अध्यक्षीय भाषण दिया। कुलपति प्रो. पूनिया ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि समेत मदवि के सभी एलुमनी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मदवि एलुमनी का विश्वविद्यालय के विकास में विशेष योगदान है। उन्होंने इस कार्यक्रम को मदवि परिवार मिलन समारोह बताया।

निदेशक एलुमनी प्रो. राजीव कुमार ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने एलुमनी एसोसिएशन की गतिविधियों की जानकारी दी। प्रो. राजीव कुमार ने कहा कि अब तक एसोसिएशन के 859 आजीवन सदस्य बन चुके हैं।

एमडीयू एलुमनी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रो. कुलदीप सिंह छिक्कारा ने स्वागत भाषण दिया। एमडीयू एलुमनी मीट में एलुमनी डायरेक्टरी भी जारी की गई। कार्यक्रम में मंच संचालन प्रो. शालिनी सिंह, प्रो. संजु नंदा तथा डा. दिव्या मल्हान ने किया। कार्यक्रम में पूर्व विद्यार्थी-प्रो.

श्वेता हुड्डा, डीन, मैनेजमेंट, भगत फूल सिंह महिला विवि, खानपुर कलां, मल्लिका शर्मा (यूके), डा. दिलबाग सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर, नोएडा) ने भी संबोधित किया।

इस एलुमनी मीट में निदेशक युवा कल्याण डा. जगबीर राठी के संयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणवी समूह नृत्य, पंजाबी गीत, फ्यूजन संगीत, मिमीक्री, हास्य व्यंग्य का सुंदर समावेश रहा। इस संगीतमय कार्यक्रम ने उपस्थित पूर्व विद्यार्थियों में पुराने दिनों की याद दिला दी। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन प्रो. राजीव कुमार ने किया।

इस एलुमनी मीट में लगभग 600 पूर्व विद्यार्थियों ने भाग लिया। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी... विश्वविद्यालयी दिनों की प्यारी यादों को मन में समेटे, पुराने मित्रों-सहलियों से हंसी-मजाक करते हुए, विश्वविद्यालय की स्मृतियों को मन में संजोते हुए, एमडीयू एलुमनी मीट मधुर यादें छोड़ गया।











